

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च २७, १९६८/चैत्र ७, १८९०

No. 103]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 1968/CHAITRA 7, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March 1968

S.O. 1211.—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the Constituency referred to therein is published for general information :—

DECLARATION

Bye-election to the House of the People 47-Hazaribagh Parliamentary Constituency.

"In pursuance of section 66 of the Representation of the People Act, 1951, I declare that Shri MOHAN SINGH OBEROI, DURGA NIWAS, BANK ROAD, PATNA has been duly elected by the 47-Hazaribagh Constituency to fill the vacancy in the House of the People caused by the resignation of Sri Basant Narain Singh.

Place: Hazaribagh

Dated 4th March, 1968.

(Sd.) MAHENDRA TANEJA,
Returning Officer."

[No. F. 5(1)/68-Leg.II.]

V. N. BHATIA, Secy.

(403)

